



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 19-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी, 2020 (07 माघ, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 41)। (केवल हिन्दी में)	13
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	कुछ नहीं।	
भाग IV	शुद्धि—पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 जनवरी, 2020

संख्या लैज. 43/2019.— दि हरियाणा पंचायती राज (सेकन्ड अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 जनवरी, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 41

हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994,

को आगे संशोधित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम ।
2. हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (Iix) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 2 का संशोधन ।
“(Iix-क) “सत्र” से अभिप्राय है, पंचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, की बैठकों का अनुक्रम;” ।
3. मूल अधिनियम की धारा 31 में,— 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 31 का संशोधन ।
(i) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“(1) कोई ग्राम सभा, अपने सदस्यों के 1/10 द्वारा पारित संकल्प द्वारा, किसी भी वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारम्भ होने वाली और दिसम्बर के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय निर्दिष्ट कर सकती है कि मादक मदिरा ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर किसी अनुज्ञप्त दुकान पर नहीं बेची जाएगी।”;
(ii) उप-धारा (2) में, “अक्तूबर के इकतीसवें दिन” शब्दों के स्थान पर, “जनवरी के पन्द्रहवें दिन” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।
4. मूल अधिनियम की धारा 66 में,— 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 66 का संशोधन ।
(i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।” ।
5. मूल अधिनियम की धारा 126 में,— 1994 का हरियाणा अधिनियम 11 की धारा 126 का संशोधन ।
(i) अन्त में विद्यमान “।” चिह्न के स्थान पर, “:” चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
(ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—
“परन्तु उपरोक्त अधिवेशनों के अतिरिक्त, प्रत्येक जिला परिषद् प्रत्येक छह मास में कम से कम दो दिन की अवधि के लिए कम से कम एक सत्र आयोजित करेगी।” ।

.....

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग ।